



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाध
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub- (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 1979/आषाढ़ 12, 1901

No. 218]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 1979/ASADHA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1979

विदेश यात्रा कर

सा. का. नि. 431 (अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त नियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, गन्तव्य स्थान और यात्रा के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए तथा विदेशी मुद्रा के विमोचन के लिए केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित तीर्थ यात्रा के प्रयोजन के लिए पोत में (शायिका सहित या रीहित) डेक पर अन्तरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर से छूट देती है।

परन्तु यह छूट सभी प्रवृत्त होगी जब कि यात्री, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 की उपधारा (ख) में यथापरिभाषित विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यवहारी से, इस के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को द्वारा विदेश यात्रा कर से छूट का लाभ उठाने के संबंध में वाचा पेश किए जाने के लिए प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (यात्री का नाम) _____
(पता) _____ जो _____ में जारी किए गए
भारतीय पारपत्र सं. _____ का धारक है, _____
को _____ (पोत का नाम) के डेक पर
(शायिका सहित या रीहित) यात्रा कर रहा है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तीर्थ यात्रा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन विदेशी मुद्रा के विमोचन के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

3. यह प्रमाणपत्र इस दृष्टि से जारी किया गया है कि जिससे उपर्युक्त व्यक्ति नीचे दिए गए ब्यारों के अनुसार अपनी यात्रा के संबंध में विदेश यात्रा कर से छूट का लाभ उठाने के लिए अपना वाचा पेश कर सके।

बुक की गई यात्रा का ब्यौरा :—

1. पोत का नाम।
2. टिकट सं. और तारीख।
3. मार्ग।

4. यात्रा की श्रेणी और तारीख ।

5. यात्रा व्यय ।

स्थान—

तारीख—

प्राधिकृत व्यवहारी की स्टाम्प और
हस्ताक्षर

[सं. ८/एफ टी टी/79-एफ-306/10/79-एफ टी टी]

ए. के. सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 1979

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, having regard to the place of destination and purposes of the journey, hereby exempts every passenger performing an international journey by deck (bunked or unberthed) in a ship for the purposes of a pilgrimage approved by Central Government or by Reserve Bank of India for purposes of release of foreign exchange, from the payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act :

Provided that this exemption will be operative only if the passenger produces a certificate in the form specified in the

Annexure hereto from an authorised dealer in foreign exchange as defined in sub-section (b) of section 2 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

Certificate for claiming the benefit of exemption from Foreign Travel Tax by persons going on pilgrimage, approved by the Central Government or the Reserve Bank of India

This is to certify that (name of the passenger—) (Address—) holder of Indian Passport No.— issued at— is travelling by (name of the ship)— to— by deck (bunked or unberthed).

2. It is also certified that the above pilgrimage has been approved by the Central Government/The Reserve Bank of India for purposes of release of foreign exchange under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

3. This certificate is issued with a view to enabling the above named person to claim the benefit of exemption from Foreign Travel Tax in respect of his/her passage as detailed below.

Details of passage booked :

1. Name of the ship.
2. Ticket No. and date.
3. Route.
4. Class and date of travel.
5. Cost of passage.

Place—

Date—

Stamp and Signature of
Authorised dealer

[No. 8/FTT/79-F. 306/10/79-FTT]

A. K. SARKAR, Under Secy.